

KENDRIYA VIDYALAYA AFS CHABUA

Notice for Offline Registration for Admission in Balvatika-3 (2023-24)

Offline Registration for Admission in Balvatika-3 for the Academic Year 2023-24 against vacant seats will commence at 09:00 am on 16.08.2023 and will close at 02:00 pm on 21.08.2023 in offline mode.

Offline registration forms can be obtained from office during above period. For admission in Balvatika-3, child should have attained 5+ years but not completed 6 years of age as on 31st March 2023. For details, visit notice board and school website <https://chabua.kvs.ac.in> at regular interval.

Contact Admission In-charge/ Principal in the given time slot only when called.

Principal

केन्द्रीय विद्यालय वायुसेनास्थल चाबुआ

बालवाटिका -3 में प्रवेश हेतु ऑफलाइन पंजीकरण की सूचना (2023-24)

शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए बालवाटिका-3 में रिक्तियों के सापेक्ष प्रवेश के लिए पंजीकरण दिनांक 16.08.2023 प्रातः 09:00 बजे से 21.08.2023 अपराह्न 02:00 बजे तक ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकेगा। पंजीकरण फॉर्म उक्त समयावधि में कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। बालवाटिका-3 में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की आयु 31.03.2023 को 5 वर्ष से अधिक किन्तु 6 वर्ष से कम होनी चाहिए। प्रवेश से संबंधित विस्तृत विवरण के लिये विद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट <https://chabua.kvs.ac.in> का नियमित रूप से अवलोकन करें।

प्राचार्य द्वारा विद्यालय में बुलाए जाने पर निर्धारित समय-अंतराल में ही प्रवेश प्रभारी/ प्राचार्य से संपर्क करें।

प्राचार्य



केन्द्रीय विद्यालय _____, सभाग _____

Kendriya Vidyalaya _____, Region _____

पंजीकरण प्रपत्र/Registration Form

Paste latest
Photograph of
ChildClass : Reg. No. :

1. विद्यार्थी का पूरा नाम (स्पष्ट शब्दों में)

Name of the Child in full (in Capital letters):

लिंग / Sex : पुरुष / Male स्त्री / Female तृतीय लिंग / Third Gender

2. जन्म तिथि (अंकों में) / Date of Birth (in figure) : दिन / Day मास / Month वर्ष / Year

शब्दों में / In words :

3. 31.03.202_ तक आयु/ Age as on 31.03.202_ वर्ष / Year मास / Month दिन / Day

4. बच्चे का रक्त समूह (Rh फैक्टर सहित) / Blood Group of the Child (With Rh Factor) :

5. बच्चे की सम्बंधित श्रेणी General SC ST OBC-CL OBC-NCL EWS BPL Diff. Abled SG Child (Attach Certificate*)

Category to which child belong:

6. आधार कार्ड नंबर/Aadhar Card Number:.....

7. माता पिता का विवरण/Details of Mother& Father:

क्र.सं. S.No.		माता/Mother	पिता / Father
(i)	नाम (स्पष्ट शब्दों में)/ Name (In Capital Letter)		
(ii)	राष्ट्रीयता (Nationality)		
(iii)	व्यवसाय (Occupation)		
(iv)	कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष / Name of the Office, Full Address & Telephone Number.		
(v)	पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष (प्रमाण सहित)/ Full Residential Address & Telephone No. (With Proof)		
(vi)	विद्यालय से दूरी (कि.मी. में)/Distance from KV in KM.		
(vii)	मूल वेतन / Basic Pay		
(viii)	पिछले 7 वर्षों में स्थानान्तरण की संख्या/ No of Transfers in last 7 years (As on 31/03/202_)		
(ix)	माता-पिता की सेवा श्रेणी/ Service Category of Parent		
(x)	कर्मचारी कोड (यदि है तो) / Emp. Code (If Any)		
(xi)	E-Mail Id:		

• I certify that the above entries are true to the best of my knowledge.

दिनांक/Date:

अभिभावक के हस्ताक्षर/Signature of Guardian

सेवा प्रमाण-पत्र/SERVICE CERTIFICATE

(केन्द्रीय सरकार/Central Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----, पद-----

कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। ये रक्षा सेवा/ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/एस.एस.बी./ असम राइफल्स /आई.टी.बी.पी/सीमा सुरक्षा बल/एन.एस.जी./एस.पी.जी./सी.आई.एस.एफ./केन्द्रीय सरकार स्यायत सस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो पूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र सरकार से वित्त-पोषित है, के नियमित कर्मचारी हैं तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण भारत में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt.....Designation.....is working as regular employee in the office/Ministry of He/She is a regular employee of Defence Service /ITBP/ CRPF/BSF/NSG/SPG/CISF/SSB/Assam Rifles/Central Govt./Autonomous Body/Public Sector Undertaking fully financed /partially financed by Central Govt. and his/her services are non-transferable/transferable anywhere in india

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)

Signature of Head of the Office

(With Name, Designation and Office Stamp)

स्थान/Place _____

दिनांक/Date _____

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____

Complete address and Telephone No. of office _____

सेवा प्रमाण-पत्र/SERVICE CERTIFICATE

(राज्य-सरकार/State Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----, -----
-----कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt..... is permanently working in the office/Ministry of and his/her services are non-transferable/transferable anywhere in State.

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)

Signature of Head of the Office

(With Name, Designation and Office Stamp)

स्थान/Place _____

दिनांक/Date _____

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____

Complete address and Telephone No. of office _____

स्थानांतरण संख्या प्रमाण-पत्र/CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS

में, _____ (नाम) _____ (रैंक/पदनाम) _____ (कार्यालय),
 एतद द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ पिछले सात साल (31.03.2022 तक) में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे
 _____ (अंको व शब्दों में) स्थानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है-

I, _____ (Name) _____ (rank/ designation) of _____ (office), do
 hereby certify that during the past 7 years (up to 31.03.2022 - I have been transferred _____
 times (in figures & in words) from one station to another, the details of which are given as under :-

क्र. स. S. No.	कार्यालय/ यूनिट Office/Unit	स्थान Place	रैंक/पदनाम Rank/Designation	दिनांक/Date		ठहरने की अवधि Period of stay	आदेश संख्या Order No.
				से/ From	तक/To		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

में जानता/जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए
 अयोग्य हो जाएगा। I know that if the above-mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for
 admission in Kendriya Vidyalaya.

माता/पिता के हस्ताक्षर
 Signature of Parent

प्रतिहस्ताक्षर/Countersignature

में, _____ (नाम) _____ (रैंक/पदनाम) _____
 (कार्यालय), एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण को कार्यालय-आलेखों से जाँच लिया गया है व सही
 पाया गया है।

I, _____ (name) _____ (rank/designation) of _____
 (unit/department) hereby certify that the particulars given in above have been authenticated by the records held in
 the office and found correct.

स्थान/Place _____

दिनांक/Date _____

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
 (नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
 Signature of Head of the Office
 (With Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____
 Complete address and Telephone No. of office _____

टिपणी/Note-

एक स्थान पर ठहरने की अवधि कम से कम छह मास होनी चाहिए।
 Period of posting/stay at a place should be minimum six months.

सेवा-कालीन मृत्यु प्रमाण-पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE
(केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए/Only for Central Govt. Employees)

प्रमाणित किया जाता है कि कुमार/कुमारी ----- स्वर्गीय
श्री/श्रीमती -----के पुत्र/पुत्री हैं जो -----
(कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत थे/थीं और उनका देहावसान सेवाकाल की अवधि में
दिनांक -----को हो गया था।

Certified that Master/Miss _____ is the son/daughter of Late Sh./Smt.
_____ who was regular employee of _____
(Office/Department) and he/she died in harness (while in service) on _____ (date).

स्थान/Place _____
दिनांक/Date _____


कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of Head of the Office
(With Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____
Complete address and Telephone No. of office _____

Documents to be submitted along with admission form:

1. Photocopy of Caste Certificate
2. Self Attested Copy of Birth Certificate.
3. Service certificate of the parent in original,(with transfer details showing the number of transfers during the preceding 7 years duly signed and stamped by the head of office bearing the name, designation and other relevant particulars in block letters , if applicable)
4. A certificate of retirement for uniformed Defense employees (If applicable).
5. Aadhar card, Voter ID card of parents, Ration Card, electricity bill etc for residential proof.
6. Caste certificate duly attested by. Gazetted officer/ Self Attested for SC/ST/EWS/OBC (Non-Creamy Layer)/BPL/Disabled, wherever applicable, issued by the competent authority in concerned State Government/Union Government)
7. Income certificate from the Employer for service holder / Self declaration of income for self employed person, in original
8. Certificate of disability of the candidate from the competent authority, (a certificate from the civil surgeon/rehabilitation centre or any other competent authority defined by the Government of India O.M. No. 36035/5/88/Estt. (sct) dated 4.5.1999 certifying the child to be handicapped, wherever applicable
9. Certificate of blood group of the candidate from competent authority.
10. Affidavit from 1st Class Magistrate ensuring "Single girl Child"(if applicable)
11. For grandchildren of Hon'ble Member of Parliament and PSU employees a proof of relationship of either of the child's parents with the Hon'ble Member of Parliament or PSU employees would be needed.
12. For grandchildren of KVS employee a proof of relationship would be required.
13. Incomplete Forms will be rejected.

Principal



तत् त्वं पूषन् अथावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन



भारत सरकार
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्य०)

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
18संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016.

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQs)

An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India

18, Institutional Area, S.J.S Marg, New Delhi-110016.

Tel.: 011-26521841

Website: www.kvsangathan.nic.in

F.No.11331/2023-24/KVS(HQ)/Acad/C-10091

/3356-82

Date 11.08.2023

The Deputy Commissioner
Kendriya Vidyalaya Sangathan
All Regional Offices

Subject: Extension of last date of Admission in Balvatika-3 Class (for children of
5+years of age) in selected 450 KVs - reg.

Madam/Sir,


In continuation to this office letter even no. dated 04.07.2023 it is to inform that it has been decided to extend the last date of admission in Balvatika-3 Class in selected 450 KVs till 31.08.2023 if seats are vacant.

Second notification for admission in Balvatika-3 Class may be given by the Vidyalayas, if seats remain vacant and registered candidates are not available.

Further, fees to be collected for Balvatika-3 Class from July 2023 onwards.


This issues with the approval of competent authority

Yours sincerely,


(B K Behera) 11/08
Deputy Commissioner (Acad) 2023

Copy to:

1. PS to the Commissioner, KVS (HQs), New Delhi for information.
2. The Joint Commissioner (Fin), KVS(HQs), New Delhi for information.



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्य.)

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
18संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016.

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQs)
An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India
18, Institutional Area, S.J.S Marg, New Delhi-110016.

Tel.: 011-26521841

Website: www.kvsangathan.nic.in

F.No.11331/2023-24/KVS(HQ)/ DC (Acad-II)

Date 04.07.2023

(Amended Letter in place of earlier letter dated 29.06.2023)

The Deputy Commissioner
Kendriya Vidyalaya Sangathan
All Regional Offices

Subject: Opening of One Section of Balvatika-3 (for children of 5+ years of age) in
450 KVs - reg

Madam/Sir,

Inviting your attention to the subject cited above, I am to convey the decision to start one section of Balvatika-3 class (for children of 5+ years of age) in the identified 450 KVs (as per the list given in Annexure-I) from the current Academic Session 2023-24. In this regard, the following guidelines are required to be followed and therefore, necessary directions be issued to the Principal of concerned KVs to take necessary for immediate action at their end:

I. Admission in Balvatika-3 :-

- Admission to Balvatika-3 class alone shall be done as per the priority and reservations given in the KVS Admission Guidelines 2023-24. The prescribed age criteria is given below:

Class	Age (as on 31 st March 2023)
Balvatika -3	Should have attained 5+ years but not completed 6 years of age.

- Reservation under the provisions of RTE Act-2009 shall be applicable for Balvatika-3.
- Provision for admission for Single Girl Child Category shall **not** be applicable to Balvatika -3.
- Local advertisement shall be issued by the respective KVs and would ensure wide publicity in their locality.
- Notification, registration and admission will be done as per the Admission Schedule (Annexure-II) attached.

- Registration for admission in Balvatika -3 will be done through Online mode. Registration link, schedule for draw of lots and other details will be issued separately.

II. Engagement of Teachers & Caregivers (Helpers) :- Following modalities shall be followed for the engagement of teachers on contractual basis and Caregivers (Helpers) for Balvatika-3.

- A total of 02 ECCE trained Balvatika Teachers shall be engaged on contractual basis by each KV.
- The engagement of such teachers on contractual basis shall be made as per the instructions contained in this office letter dated 08.10.2013 and their remuneration shall be paid as per this office letter dated 21.03.2013 (similar to that of Primary Teachers)
- Qualification for Balvatika Teachers as prescribed by NCTE is given below:
 - i. Senior Secondary class (Class XII or its equivalent) from a recognised Board with at least 50% marks **and**
 - ii. Diploma in nursery Teacher education /Pre -school Education /Early Childhood Education Programme (D.E.C.Ed) of duration of not less than two years or B.Ed (Nursery) from NCTE recognised institutions.
- One Caregiver shall be engaged by each of the KV for Balvatika-3.
- Caregivers (helper) shall be engaged through the process of outsourcing.
- Qualification for caregiver or helper shall be as prescribed by NCERT/ NCPCR.
 - i. Secondary class (Class X or its equivalent) from a recognised board, minimum 18 years of age and should have induction training in pre-school Education. Or Any person possessing skill training /adequate training as prescribed by NIPCCD, NSDC or any other institution recognised by the central Government/appropriate Government/Recognised University/Board.
- Salary for helpers shall be as per the rates applicable for semi-skilled persons.

III. Class rooms, furniture and other resources:

- The identified class room shall be made as attractive and colourful to motivate the children.
- Age appropriate furniture shall be procured by the respective KVs following GFR 2017. The KVs may either opt to have hexagonal tables and chairs or any other suitable design as deemed fit. However, it should be ensured that these are safe for the usage by children.
- Further, Smart class facilities including good audio systems, other Teaching Aids, Storage Facilities. etc shall be made available in each of these classes.
- Initially, a sum of Rs 2,50,000/= (Rupees Two lakh Fifty Thousand only) shall be made available as initial grant from KVS (HQs) to govt-funded KVs towards these expenditures.

IV. School Timing, Fees & others :-

- Duration of the school timings would be 03 hrs per day on a five-day week basis and the actual timings would be decided by the respective Vidyalayas.
- Vacation and breaks shall be as per the existing schedule.
- No uniform has been prescribed for the Balvatika classes.
- Fee structure shall be similar to existing Class I as per this office letter dated 31.03.2013. It will be collected through UBI portal only.
- Curriculum and resources prescribed by NCERT would be used for Balvatika-3. Academic resources for Balvatika classes have been shared by this office letter dated 24.11.2022.

The earlier letter dated 29.06.2023 is treated as withdrawn.

Yours sincerely,



(N R MURALI)

Joint Commissioner (Acad)

- Encl: 1. List of selected 450 KVs for Balvatika -3
2. Admission Schedule for Balvatika -3

Copy to:

1. PS to the Commissioner, KVS (HQs), New Delhi for information.
2. The Joint Commissioner (Admn-I/ Admn/Trg/Pers/Fin), KVS(HQs), New Delhi for information
3. The Deputy Commissioner (Finance), KVS (HQs) with the request to take up the matter with Union Bank of India to open link for Balvatika-3 for collection of fees through online.
4. The Deputy Commissioner, (Acad& EDP) with the request to upload this letter & Admission Schedule for Balvatika -3 on KVS (HQs) website.
5. The Director, KVS ZIETs for information.